

अनुसूचित जमातीचा दावा करून निवडणूक
लढविलेल्या उमेदवारांच्या जाती दाव्याची
पडताळणी, संबंधित अनुसूचित जमाती जाती
प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून करून घेणेवाऱ्हत.

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१०९८ / प्र.क्र. ३३ / का.१०

मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : १९ एप्रिल, १९९९.

- वाचा :** - (१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक एसटीसी-१६९६ / प्र.क्र. ३४ / का. १०, दिनांक ७ मार्च, १९९६.
(२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. एसटीसी-१८९५ / प्र.क्र. १८२ / भाग-२ / का.१०, दिनांक १५ मार्च, १९९६.
(३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. एसटीसी-१८९५ / प्र.क्र. १८२ / का.१०, दिनांक १४ जुलै, १९९७.
(४) शासन शुद्धीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, क्र.एसटीसी-१८९५ / प्र.क्र. १८२ / का.१०, दिनांक २३ जुलै, १९९७.
(५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. एसटीसी- १०९८ / प्र. क्र. ३३ / का.१०, दिनांक ११ जून, १९९८.

प्रस्तावना - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. या जागावर अनुसूचित जमातीचे असल्याचे स्वाम प्राधिका-वाकळील जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवित असतात मात्र ते त्या जमातीचे नसल्याचे शासनाच्या निर्दर्शनास आहेत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या राखीव असणा-या जागावर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जाती दाव्याची पडताळणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराचीन होती.

शासन निर्णय - त्यास अनुसारूप शासन आला जसे आदेश देत आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जमातीकरीता राखीव असलेल्या इभागातून निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करून द्यावी. निवडणूका दार्त्यानंतर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या उमेदवारांची जातीची प्रमाणपत्रे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे १५ दिवसांच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रासह पाठवावीत व संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अशा उमेदवारांच्या जाती दाव्याची पडताळणी ४५ दिवसांच्या आत करून घेतलेला निर्णय संबंधित जिल्हाधिकारांकडे न चूकता पाऊला.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल योंच्या आदेशानुसार व नावाने,

(रामानंद तिड्हाराई)

सचिव,

आदिवासी विकास विभाग

प्रति,

राज्यपाल याचे सचिव

मुख्यमंत्री याचे सचिव

मंत्री / राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) याचे खाजगी सचिव

सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

MR-20020417154518000-2100

सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व अपर विभागीय आयुक्त / सर्व उप विभागीय आयुक्त
संचालक, आदिवासी सशोधन व प्रशिक्षण संस्था, २८, कवीन्द्र गार्डन, पुणे-४११००१,
आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.
संचालक, सामाजिकल्पाण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० इडी).

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर
सर्व उप आयुक्त, राज्य निबंधनक आयोग.

संचालक तथा अध्यक्ष, अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे / नाशिक / नागपूर.
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.

- सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
- प्रबंधक, मूलन्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
- प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई
- प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अफिल शाखा), मुंबई
- प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई
- प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालयावे खडपीठ, औरंगाबाद / नागपूर
- प्रबंधक, महाराष्ट्र ग्रंथासंचय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर
- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
- आयुक्त, अनुसूचित जाती / जमाती, भारत सरकार, वेस्ट ब्लैंक नं१, विग न७, याहिला मजला, रामकृष्ण पूरम, नवी दिल्ली - ११००६६.
- उपसंचालक, अनुसूचित जाती / जमाती आयोग, भारत सरकार, विपद्धकर भवन, शारदी मार्ग, नवी पेठ, पुणे-४११०३०.
- सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
- मुख्य निबंधनक आयुक्त, राज्य निबंधनक आयोग
- मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई
सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, नागपूर / औरंगाबाद
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई
- सर्व जिल्हाधिकारी
- सर्व उप जिल्हाधिकारी
- सर्व उप विभागीय अधिकारी (महारूप)
- सर्व लहसिलद्यर
श्री. सुरेश कुलकर्णी, विशेष समुपदेशी, मधुवंश, औरंगपूरा, औरंगाबाद-१
श्रीमती सुष्मा देशपांडे विशेष समुपदेशी, अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, आदिवासी विकास, भवन, गिरीफेट, नागपूर.
- सामान्य ग्रंथासन विभाग (१६-ब), मंत्रालय, मुंबई
- सर्व मंत्रालयीन विभाग
- आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यासने
निवड नहीं, का०१०.